



# ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

## पर्यावरण विज्ञान विभाग

डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सालन  
भारत मौसम विज्ञान विभाग, भू-विज्ञान मंत्रालय

(भारत सरकार)

## मौसम और कृषि दृष्टिकोण



Tel: +91-1792-252706 ; e-mails: [Jangra\\_ms@live.com](mailto:Jangra_ms@live.com), [skguptamp@rediffmail.com](mailto:skguptamp@rediffmail.com)

वर्ष: 23 अंक: 48 अवधि: 23-27 सितम्बर 2017 दिनांक: 22-09-2017

शिमला, सोलन, सिरमौर व बिलासपुर जिलों के मौसम का पूर्वानुमान  
पिछले सप्ताह का मौसम: पिछले सप्ताह शिमला व सिरमौर जिलों में वर्षा रिकार्ड की गई। दिन का तापमान सामान्य से अधिक व रात का तापमान सामान्य से कम रिकार्ड किए गया। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.6 डि.सै. (22-09-2017) बिलासपुर जिले के बर्थिन में रिकार्ड किया गया।

### आने वाले पांच दिनों के मौसम का पूर्वानुमान

अगले पांच दिनों में सभी जिलों में हल्की वर्षा होने की व आसमान में हल्के बादल छाए रहने की सम्भावना है। दिन के तापमान में 1-2 डि.सै. बढ़ती व रात के तापमान में 1-2 डि.सै. कमी होने की सम्भावना है। हवा पूर्वी व पूर्वी उतर-पूर्वी दिशा से 3 से 7 कि.मी. प्रति घण्टा की गति से चलने की सम्भावना है। औसतन सापेक्षता आर्द्रता 55-91 प्रतिशत तक रहने की सम्भावना है।

### सप्ताहिक कृषि कार्य

सब्जी फसलों सम्बंधित कार्य :

मूली, शलगम, मेथी तथा पालक की बीजाई करें। बैंगन की पनीरी तैयार करें। अगस्त मास में लगाई गई मध्य ऋतु की फूलगोभी, गाजर, मटर तथा खरीफ प्याज में कैन की दूसरी मात्रा डालें। अरकल मटर की बीजाई करें। मध्यवर्ती क्षेत्रों में पछेती फूलगोभी पूसा स्नोवॉल के-1 तथा गोभी वर्गीय परिवार की बीज वाली फसल की पनीरी तैयार करें।

बागवानी सम्बंधित कार्य:

प्लम तथा खुमानी के अगले वर्षा अच्छे बीमा हेतु 2.5 प्रतिशत यानि 5 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी का छिड़काव करें। परसीमोन जापानी फल तथा अखरोट में विनीयर ग्राफ्रिटिंग कर सकते हैं। किवी फल में अवांछित टहनियों की कटाई करें क्योंकि इस माह फल का आकार बढ़ता है।

खुम्ब उत्पादन सम्बंधित कार्य :

जिन किसानों ने कम्पोस्ट/खाद तैयार कर ली है तो खाद में 1 किलोग्राम/100 किलोग्राम दर से स्पॉन मिलायें तथा पॉलीथिन के थैलों में 10 किलोग्राम की मात्रा से भरें। थैलों का मुँह मोड़ कर बंद कर दें तथा थैलों के चारों तरफ 10-15 छेद करें। अब इन बीजित थैलों को फसल कक्ष में बांस या लोहे के रैक पर रखें। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रखें।

पुष्प उत्पादन सम्बंधित कार्य

गुलदाऊदी के पौधों को सहारा देने, तथा अवांछित कलियों को हटाना, जरबेरा में पौधे खेत में लगाने का समय। लिलियम के बल्ब का कोल्ड स्टोर में भण्डारण। चदमे चढ़ाएं। गुलाब के पौधे पॉलीहाऊस में लगाने का समय। ग्लेडियोलस तथा लिली के बल्ब को इकट्ठा कर भण्डारण करें। सर्दियों के फूलों की पौधे तैयार करने के लिये क्यारियां तैयार करें। एलस्ट्रोमेरिया की रोपाई के लिये क्यारियां तैयार करें।

नोडल बैज्ञानिक

विभागाध्यक्ष

विस्तार शिक्षा निदेशालय